

## प्रेस नोट दिनांक-03.03.2021

(1). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट के निर्देशन में अवैध शराब निर्माण एवं बिक्री की रोकथाम हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में श्री वीरेन्द्र त्रिपाठी प्रभारी निरीक्षक कोतवाली कर्वी के मार्गदर्शन में उ0नि0 श्रीमती रीता मौर्या तथा उनके हमराही द्वारा अभियुक्त मेवालाल निषाद पुत्र चुन्नीलाल निवासी डिलौरा थाना कोतवाली कर्वी को 40 लीटर कच्ची शराब के साथ गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध थाना कोतवाली कर्वी धारा 60 आबकारी अधिनियम के अन्तर्गत मुकदमा पंजीकृत किया गया।

### गिरफ्तारी करने वाली टीम:-

1. उ0नि0 श्रीमती रीता मौर्या थाना कोतवाली कर्वी
2. महिला आरक्षी नाजिया परवीन

(2). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट के निर्देशन में अपराध पर अंकुश लगाने हेतु अपराधियों के विरुद्ध की जा रही कार्यवाही के क्रम में श्री संजय कुमार उपाध्याय प्रभारी निरीक्षक भरतकूप के मार्गदर्शन में उ0नि0 श्री धनन्जय राय तथा उनकी टीम द्वारा जिलाबदर अपराधी आलोक पुत्र राजा राम निवासी भारतपुर थाना भरतकूप जनपद चित्रकूट को जिलाबदर के नियमों को उल्लंघन करने पर गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध थाना भरतकूप में धारा 10 गुण्डा एक्ट के तहत मुकदमा पंजीकृत किया गया।

### गिरफ्तारी करने वाली टीम

1. उ0नि0 श्री धनन्जय राय थाना भरतकूप
2. मुख्य आरक्षी अब्दुल खलील
3. आरक्षी वकील

(3). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट के निर्देशन में अपराध पर अंकुश लगाने हेतु अपराधियों के विरुद्ध की जा रही कार्यवाही के क्रम में श्री गुलाब त्रिपाठी प्रभारी निरीक्षक मऊ द्वारा भोली भाली जनता में भय आतंक फैला कर गुण्डा गर्दी करने वाले अभियुक्त 1. नेता उर्फ देवलाल पुत्र बाउर निवासी पटोरी 2. अवधेश सिंह पुत्र बाबूलाल 3. अजय सिंह पुत्र बाबूलाल निवासीगण उफरौली 4. पन्चू पुत्र मोतीलाल निवासी बौसड़ा 5. पिन्टू पुत्र लोकनाथ निवासी बालापुर 6. बीरू पुत्र मिथलेश निवासी चकोर 7. रमेश पुत्र कुट्टीलाल निवासी बालापुर थाना मऊ जनपद चित्रकूट के विरुद्ध धारा 110 जी सीआरपीसी की कार्यवाही की गयी।

(5). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट के निर्देशन में गुमशुदा/अपहताओं की बरामदगी हेतु चलाए जा रहे ऑपरेशन मुस्कान के क्रम में उ0नि0 श्री सिद्धनाथ राय प्रभारी एण्टी रोमियो टीम थाना बरगढ़ तथा उनकी टीम द्वारा मां की डांट से क्षुब्ध होकर घर से चली गयी 02 बालिकाओं को सकुशल बरामद कर उनकी माता जी के सुपुर्द किया ।

उल्लेखनीय है कि कल दिनांक-02.03.2021 को श्रीमती गुलाब देवी निवासी पनहाई मजरा सेमरा थाना बरगढ़ जनपद चित्रकूट द्वारा थाना बरगढ़ में सूचना दी गयी कि कु0 फूला उम्र 15 वर्ष व कु0 पूजा उम्र 13 वर्ष मेरे द्वारा डाटने से क्षुब्ध होकर घर से कही चली गयी है । इस सूचना पर एण्टी रोमियो टीम थाना बरगढ़ द्वारा दोनों बालिकाओं को आर्यावर्त बैंक मुर्का से सकुशल बरामद कर माता श्रीमती गुलाब देवी के सुपुर्द किया गया ।

### बरामदगी करने वाली टीम:-

1. उ0नि0 श्री सिद्धनाथ राय प्रभारी एण्टी रोमियो टीम थाना बरगढ़
2. आरक्षी राहुल यादव
3. महिला आरक्षी रीना यादव

(4). उ0प्र0 शासन द्वारा नारी सुरक्षा, नारी सम्मान, नारी स्वालंबन, महिला कल्याण एवं बाल विकास के लिए चलाये जा रहे मिशन शक्ति अभियान के अन्तर्गत पुलिस अधीक्षक चित्रकूट के निर्देशन में दिनांक 03.03.2021 को श्री गुलाब

त्रिपाठी प्रभारी निरीक्षक थाना मऊ तथा एण्टी रोमियो टीम थाना मऊ द्वारा पं० शिवकुमार त्रिपाठी इण्टर कॉलेज मऊ में छात्राओं के साथ गोष्ठी की गयी, एण्टी रोमियो टीम थाना राजापुर द्वारा तुलसी इण्टर कॉलेज राजापुर में, एंटी रोमियो टीम थाना मारकुंडी जनपद चित्रकूट द्वारा ग्राम गोपीपुर/करौहा में भ्रमण कर एवं प्राथमिक विद्यालय गोपीपुर में भ्रमण कर, एण्टी रोमियो टीम थाना बरगढ़ द्वारा कस्बा बरगढ़ में भ्रमण कर बालिकाओं/महिलाओं को वीमेन पावर लाइन 1090, महिला हेल्पलाइन 181, मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1076, पुलिस आपातकालीन सेवा 112, चाइल्ड हेल्पलाइन 1098, स्वास्थ्य सेवा 102, एम्बुलेंस सेवा 108 एवं अपने-अपने थाना के सीयूजी नम्बर के बारे में विस्तृत जानकारी देकर जागरूक किया साथ ही कोविड-19 के नियमों का पालन करने हेतु बताया गया। एण्टी रोमियो टीम के सदस्यों द्वारा छात्राओं/बालिकाओं से उनके साथ घटित किसी भी प्रकार की समस्याओं के बारे में पूछा गया एवं आवश्यकता पड़ने पर सम्बन्धित थाना प्रभारी/एण्टी रोमियो टीम प्रभारी व उ०प्र० पुलिस द्वारा संचालित महिलाओं/बालिकाओं/छात्राओं हेतु चलाये जा रहे नम्बरों पर काल करने हेतु कहा गया।